

पंजीकृत डाक द्वारा

**नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण**

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नोएडा(उ0प्र0)

संख्या नोएडा/मु0वा0नि0/2016/ IV - 1500/९३५

दिनांक:

24/10/2016

सेवा में,

**M/s Land Kart Builders Pvt. Ltd.,  
Subsidiary of M/s Lotus Greens Constructions Pvt. Ltd.,  
Lotus Business Park, 7th Floor,  
Tower - B, Plot No - 8, Sector-127,  
Noida**

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 18.10.2016 के संदर्भ में आपके द्वारा प्रस्तावित स्पोर्ट सिटी भूखण्ड संख्या एस०सी० - ०२/ए - १, सैक्टर - १५०, नोएडा पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (मान्य निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मौगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़ाव(प्रोजेक्टेड) न हों।
6. बिजली की लाईन से पॉच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी भौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नोएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजेनाइन तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टैप्स नहीं बनाये जायेंगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नोएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नोएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।

15. स्वीकृत ले-आउट प्लान की स्वीकृति पत्र सं0 नौएडा/मु0वा0नि0/2015 IV-1451/780 दिनांक 16.04.2015 एवं सब लीज भूखण्ड एस0सी0 - 02/ए, सैक्टर - 150 के भवन मानचित्र स्वीकृति पत्र सं0 नौएडा/मु0वा0नि0/IV-1458/787, दिनांक 12.05.2015 के सभी नियम/प्रतिबन्ध एवं शर्तें आदि यथावत पूर्णरूप से लीज धारक पर भी लागू होगी तथा इस स्वीकृति का अभिन्न भाग रहेगा ।
16. ब्रोशर, लीजडीड, सबलीज डीड, महायोजना, बिल्डिंग रेगुलेशन्स आदि के यथा संशोधित अध्यावधिक नियम, शर्तों, प्रतिबन्धों के प्रावधान इस स्वीकृति पर भी लागू माने जायेगे ।
17. यह स्वीकृति सदा सम्पूर्ण स्पोर्ट सिटी की योजना के एकीकृत भाग के रूप में ही मान्य होगी तथा स्वतंत्ररूप से इस प्रस्तावित निर्माण की स्वीकृति का कोइ अस्तित्व नहीं रहेगा ।
18. स्पोर्ट सिटी की परियोजना के लिए ब्रोशर/लीज डीड में पृष्ठ 9 से 11/सी पर अंकित सुविधाओं के विकास एवं वित्तीय परिव्यय के अनुसार गुणवत्तापूर्वक कार्य कराने का दायित्व/सह दायित्व मूल लीज डीड धारक एवं सब लीज डीड धारक का संयुक्त रूप से रहेगा ।
19. मनोरंजन(खेल, संस्थागत, अन्य सुविधाओं) के अनउपयोगित एफ0ए0आर0 **26,428.00 वर्ग मी0** (जो कि संदर्भित योजना के आवासीय एफ0ए0आर0 का 12.98% है) आवासीय उपयोग से रक्षानान्तरित कर निर्मित एवं उपयोग करने हेतु मनोरंजन घटक की सभी कार्य एवं सुविधाओं के गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही अनुमन्य होगा, जिसको सबलीज डीड धारक के हिस्से में आने वाले भाग को मानचित्र में प्रस्तावित आवासीय निर्माण में फेस-2 के रूप में दर्शाया गया है । इससे पूर्व इस भाग की स्वीकृति मात्र प्रतीकात्मक रूप में ही मान्य होगी ।
20. प्रस्तावित सर्विस अपार्टमेंट के निर्माण के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट (Promotion of Construction, ownership & Maintenance) एक्ट, 2010; तथा इसके अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा अधिनियम में निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
21. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाईड्डोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्डस्टिग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा ।
22. यह स्वीकृति स्पोर्ट सिटी भूखण्ड पंजीकरण एवं आवंटन हेतु विवरण पुस्तिका की नियम एवं शर्तें/लीज़ डीड की शर्तें/नोएडा महायोजना-2031/नोएडा भवन विनियमावली -2010 के सुसंगत यथा प्रभावी प्राविधानों के अधीन होगी जिसके उल्लंघन की दशा में यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
23. सभी भवनों आदि के निर्धारित उपयोग में नोएडा महायोजना-2031 के जोनिंग एवं सब डिवीजन रेगुलेशन्स तथा नोएडा भवन विनियमावली-2010 (यथा संशोधित एवं प्रभावी) में अनुमन्य कियाये एवं उपयोग तथा उसके सपोर्टिंग यूज़ में अनुमन्य कियाये एवं उपयोग के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के उपयोग की अनुमति किसी भी दशा में नहीं होगी। यह प्रतिबन्ध मूल पट्टाधारक, उप पट्टाधारक, किरायेदार/उपयोगकर्ता आदि सभी पर लागू होगा।
24. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका की शर्त के अनुसार नोएडा प्राधिकरण द्वारा परियोजना के कियान्वित करने एवं परियोजना को पूर्ण कर कियाशील किए जाने तक सतत् समीक्षा की जायेगी
25. पंजीकरण एवं आवंटन पुस्तिका एवं लीज़ डीड की शर्तें एवं नियमों के अनुसार आवेदक को परियोजना पूर्ण करने हेतु निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत परियोजना पूर्ण करनी होगी ।
26. सभी प्रकार के विकास कार्य एवं अवस्थापना सुविधाये तथा भवनों का निर्माण कार्य समय-समय पर शासकीय नीति/निर्देशों, बी.आई.एस./आई.एस. के लागू सुसंगत कोड एवं मानकों के अनुरूप किया जायेगा। तदुपरान्त आवेदन करने के साथ नियमानुसार उनका कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के उपरान्त ही अधिभोग में लाया जायेगा।
27. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शासन की नीति के अनुसार ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग, जलापूर्ति वितरण व्यवस्था एवं भूमिगत जल के उपयोग, जल संरक्षण एवं पुनर्वितरण, वर्षा जल संचयन, परिस्थितिकी एवं पर्यावरण संरक्षण, भूमि खुदाई एवं उत्खनन, वृक्षारोपण/लैण्ड स्केपिंग एवं सामाजिक वानिकी, सीवेज डिस्पोजल एवं सॉलिड बेस्ड मैनेजमेंट आदि की व्यवस्था सम्बन्धित शासकीय विभागों की गाइड लाइन्स/ मानकों/नियमों/शर्तों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों के अनुसार करनी होगी।

28. सम्पूर्ण परिसर में विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन सुरक्षा, आपदा प्रबन्धन, भूकम्परोधी निर्माण एवं स्ट्रक्चरल सेफ्टी/स्टेबिलिटी, 30 मीटर से ऊँचे भवनों हेतु एयरपोर्ट अथोरिटी आदि के मानकों एवं सम्बन्धित विभागों की गाइड लाइन्स/मानकों/नियमों/शर्तों/शासनादेशों एवं उनकी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के निर्देशों का अनुपालन समस्त विकास कार्य एवं भवनों के निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं के विकास में किया जायेगा।
29. सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी विकास कार्यों, सामुदायिक एवं जन-सुविधायें, अवस्थापना सुविधायें, सभी स्ट्रक्चर्स, सभी प्रकार के भवनों आदि का गुणवत्ता के साथ विकास, निर्माण, परिचालन, रख-रखाव, अनुरक्षण आवेदक संस्था को स्वयं करना होगा। इस सम्बन्ध में नोएडा प्राधिकरण एवं शासन द्वारा समय-समय पर नीतिगत निर्णय एवं निर्देशों का पूर्णतया पालन करना होगा।
30. सम्पूर्ण परिसर के भीतर निर्मित परिसर/भवन/स्ट्रक्चर/ सामुदायिक एवं जन-सुविधाओं/उपयोग आधारित कियाओं आदि का उप विभाजन, सब लीज़, सब लेटिंग आदि आवेदक संस्था द्वारा आवंटन नियमावली, लीज़ डीड, नोएडा प्राधिकरण के नियमों व नीतियों, भवन विनियमावली-2010, नोएडा महायोजना-2031(यथा संशोधित एवं प्रभावी) के प्राविधानों के अन्तर्गत बिना प्राधिकरण की यथावश्यक पूर्वानुमति प्राप्त किए आवेदक द्वारा नहीं किया जायेगा।
31. परियोजना के सम्पूर्ण परिसर एवं उसके भीतर निर्मित सभी भवनों में शारीरिक रूप से अक्षम एवं असक्त व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधायें एवं सुगम्यता के दृष्टिगत अवरोधमुक्त परिसर के रूप में विकास एवं निर्माण किया जायेगा।
32. परियोजना के समस्त भवनों का निर्माण, आन्तरिक एवं बाह्य विकास कार्य, अवस्थापना सुविधायें, जन सेवायें एवं सामुदायिक सुविधायें आदि का विकास पूर्ण करने पर आने वाला समस्त व्यय आवेदक को स्वयं बहन करना होगा जिसमें देय समस्त शुल्क, चार्जेज, टैक्स, लेबी आदि (यथा लागू)भी सम्मिलित है।
33. परिसर में प्रस्तावित हरित क्षेत्रफल एवं वृक्षों का रखरखाव गुणवत्तापूर्वक आवेदक को स्वयं अपने व्यय पर करना होगा।
34. यह स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा कब्जा दिये गये क्षेत्रफल के सापेक्ष ही अनुमन्य होगी।
35. स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ सलंगन है। भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें।
36. स्थल पर निर्माण कार्य शुरू आरम्भ करने के पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विज्ञापित अधिसूचना संख्या 1067 दिनांक 14.9.06 में निहित प्राविधानों, इसमें समय-समय पर संशोधनों तथा उक्त मंत्रालय द्वारा अपेक्षित अन्य व्यवस्थाओं / निर्देशों के अनुसार पर्यावरण मूल्यांकन पुनरीक्षित अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा यह स्वीकृति पर्यावरण सम्बन्धित पुनरीक्षित अनापत्ति प्राप्त करने हेतु ही अनुमन्य होगी। पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा तक निर्माण नियमानुसार कराया जा सकता है तथा पर्यावरणीय अनापत्ति पत्र में उल्लेखित क्षेत्रफल की सीमा के उपरान्त निर्माण से पूर्व पुनरीक्षित पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत करनी होगी।
37. सभी प्रस्तुत की गयी/की जाने वाली अनापत्ति प्रमाण पत्र यथा - प्रदूषण, पर्यावरण, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी, अग्निशमन, एअर पोर्ट अथोरिटी से अनापत्ति पत्र, अदेयता प्रमाण पत्र आदि में अंकित सभी प्रतिबन्धों एवं शर्तों का यथावत अनुपालन किये जाने का उत्तरदायित्व आबंटी/आवेदक का होगा, जिसका पालन न किये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त एवं निष्प्रभावी माने जायेगे।
38. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0 21/2012 वर्धमान कौशिक बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य तथा मूल प्रार्थना पत्र सं0 95/2014 संजय कुलश्रेष्ठ बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 में दिये गये निर्माण कार्यों हेतु दिशा निर्देशों एवं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश - 2010 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा तथा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे।
39. प्रस्तुत मानचित्र भवन की 30 मी० ऊँचाई तक के लिए स्वीकृत किये जाते हैं।
40. प्रस्तावित भवनों की प्रस्तावित ऊँचाई के सम्बन्ध में एअर पोर्ट अथोरिटी से अनापत्ति पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण के भवन प्रकोष्ठ में प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर मानचित्रों में उल्लेखित शर्त को निरस्त किया जायेगा तथा संशोधित पत्र एवं मानचित्र बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के निर्गत किये जायेंगे।

41. ग्रीन बिल्डिंग हेतु नौएडा भवन विनियमावली, 2010 के प्रावधानों एवं प्रतिबन्धों के अनुसार लीड/ग्रीहा संस्थान से संदर्भित उप विभाजित भूखण्ड का पंजीकरण कराकर प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात ही ग्रीन बिल्डिंग हेतु अतिरिक्त 5% एफ०ए०आर० अनुमन्य किया जायेगा ।
42. आबंटी को ग्रीन भवन हेतु लीड/ब्यूरो ऑफ इनर्जी एफिशियेंसी द्वारा हर तीन वर्ष में आज्ञा पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रेषित करना होगा । अगर उसके द्वारा यह प्रमाण पत्र प्राधिकरण में प्रेषित नहीं किया जाता है तो एक माह के नोटिस पर प्राधिकरण द्वारा उसको निःशुल्क प्रदत्त एफ.ए.आर. का प्रशमन शुल्क क्रय योग्य एफ.ए.आर. का 200% की दर से वसूल किया जायेगा ।
43. संदर्भित प्रकरण में लेबर सेस की धनराशि मानचित्र स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर जमा कराना होगा ।
44. भूखण्ड सं० एस०सी०-२/ए, सैक्टर - 150, नौएडा के मूल आबंटी संस्था लोट्स गीन्स कन्स्ट्रक्शन प्रा० लि० को मूल भूखण्ड के उप विभाजन को पूर्व स्वीकृत ले-आउट प्लान में समायोजित कर प्राधिकरण से पुनरीक्षित कराना होगा ।
45. आई०जी०बी०सी० के सम्बन्ध में ग्रीन बिल्डिंग हेतु देय 5% निःशुल्क एफ०ए०आर०, शासन से अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रदान की जाती है अन्यथा ग्रीन बिल्डिंग हेतु निःशुल्क प्रदान की गयी 5% एफ०ए०आर० की गणना मूल एफ०ए०आर० में करते हुए संशोधित मानचित्र स्वीकृत कराने होगे अथवा अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

सब लीज भूखण्ड एस०सी० - ०२/ए - १, सैक्टर - 150, नौएडा पर निर्माण का विवरण

● भूखण्ड का क्षेत्रफल	= 83,970.00 वर्ग मी०
● सबसिडेयरीज के उप विभाजन के अनुसार अनुमन्य भू-आच्छादन	
आवासीय	= 9839.671 वर्ग मी०
वाणिज्यक	= 435.080 वर्ग मी०
स्पोट्स	= 404.864 वर्ग मी०
कुल	= 10,679.615 वर्ग मी०
● प्रस्तावित भू-आच्छादन	
आवासीय	= 9839.671 वर्ग मी०
वाणिज्यक	= 435.080 वर्ग मी०
स्पोट्स	= 404.864 वर्ग मी०
कुल	= 10,679.615 वर्ग मी०
● सबसिडेयरीज के उप विभाजन के अनुसार अनुमन्य एफ०ए०आर०	
आवासीय	= 2,03,605.522 वर्ग मी०
वाणिज्यक	= 435.080 वर्ग मी०
स्पोट्स	= 1523.446 वर्ग मी०
कुल	= 2,05,564.048 वर्ग मी०
● प्रस्तावित एफ०ए०आर०	
आवासीय	= 2,03,605.522 वर्ग मी०
वाणिज्यक	= 435.080 वर्ग मी०
स्पोट्स	= 1523.446 वर्ग मी०
कुल	= 2,05,564.048 वर्ग मी०

- घनत्व(डेन्सिटी गणना)

भूखण्ड का क्षेत्रफल	= 83,970.00 वर्ग मी0
सबसिडेयरीज के उप विभाजन के अनुसार अनुमन्य ड्वेलिंग यूनिट्स = 2268 यूनिट	
कुल प्रस्तावित ड्वेलिंग यूनिट्स	= 2268 यूनिट
व्यक्तियों की अनुमन्य संख्या = 2268 X 4.5	= 10206 व्यक्ति
प्रस्तावित = 2268 X 4.5	= 10206 व्यक्ति ।

- पार्किंग का विवरण

कुल पार्किंग स्थल की आवश्यकता आवासीय(2,03,605.522/80)	= 2545 पार्किंग स्थल
कुल पार्किंग स्थल की आवश्यकता वाणिज्यक (435.080/50)	= 9 पार्किंग स्थल
कुल पार्किंग स्थल की आवश्यकता स्पोर्ट्स (1523.446/50)	= 30 पार्किंग स्थल
कुल आवश्यक पार्किंग स्थल	= 2584 पार्किंग स्थल
प्रस्तावित पार्किंग स्थल(बेसमेंट) (60,432.701/30)	= 2014 पार्किंग स्थल
प्रस्तावित पार्किंग स्थल(स्टिल्ट) (2399.621/30)	= 80 पार्किंग स्थल
खुले क्षेत्र में पार्किंग स्थल(10029.0/20)	= 501 पार्किंग स्थल
कुल प्रस्तावित पार्किंग स्थल	= 2595 पार्किंग स्थल

- हरित क्षेत्र का विवरण

भूखण्ड का क्षेत्रफल	= 83,970.00 वर्ग मी0
प्रस्तावित भू-आच्छादन	= 10,679.615 वर्ग मी0
कुल खुला क्षेत्रफल (83,970.00 - 10,679.615)	= 73,290.385 वर्ग मी0
हरित क्षेत्र की आवश्यकता (खुले क्षेत्र का 50%)	= 36,645.1925 वर्ग मी0
प्रस्तावित ग्रीन क्षेत्रफल	= 39,077.624 वर्ग मी0
कुल पौधों की आवश्यकता 73,290.385/100 = 732.90.385 = 733 पौधे	

आबंटी संस्था द्वारा मानचित्रों में कुल 735 पौधों की संख्या प्रस्तावित की गयी है, जिसमें से 50% पौधे लम्बी अवधी एवं घने छायादार दर्शाये गये हैं।

#### सैटबेक विवरण:-

सैटबेक	अनुमन्य (मी0)	प्रस्तावित (मी0)	
		तहखाना	भवन
अग्र	16.0	10.10	16.0
पृष्ठ	9.0	15.40	9.0
बाई साइड	9.0	6.0	9.0
दाई साइड	9.0	18.15	9.0

## तल-वार विवरण

तल	उपयोग	अनुमन्य एफ.ए.आर. क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	सर्विस क्षेत्रफल/ 15% (वर्ग मी०)	प्रस्तावित एफ.ए.आर. क्षेत्रफल (वर्ग मी०)
भूतल/स्टिल्ट	आवासीय	21,600.00	893.422	4560.563
मेजेनाइन तल	आवासीय		75.106	225.776
प्रथम तल	आवासीय		1158.698	5637.609
द्वितीय तल	आवासीय		1205.473	7837.018
तृतीय तल	आवासीय		1205.473	7837.018
चर्तुर्थ तल	आवासीय		1205.473	7837.018
पंचम तल	आवासीय		1205.473	7837.018
छठवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
सातवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
आठवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
नौवा तल	आवासीय		1205.473	7837.018
दसवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
ग्यारहवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
बारवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
तेरहवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
चौदहवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
पन्द्रहवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
सोलहवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
सत्रहवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
अट्ठारहवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
उन्नीसवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
बीसवां तल	आवासीय	शेष एफ0ए0आर0	1205.473	7837.018
इक्कीसवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
बाइसवां तल	आवासीय		1205.473	7837.018
तैइसवां तल	आवासीय		746.749	4767.366
चौबीसवां तल	आवासीय		746.749	4767.366
पच्चीसवां तल	आवासीय		746.749	4767.366
छब्बीसवां तल	आवासीय		746.749	4767.366
सत्ताइसवां तल	आवासीय		746.749	4767.366
अट्टाइसवां तल	आवासीय		746.749	4767.366
ममटी व मशीन रूम			1682.151	.....
कुल आवासीय			33,604.804	2,03,605.522
कुल वाणिज्यिक			.....	435.080
कुल स्पोर्ट्स			94.817	1523.446
<b>कुल</b>		<b>2,05,564.048</b>	<b>33699.621</b>	<b>205,564.048</b>

स्टिल्ट			4385.686	
बेसमेंट			65317.126	
कुल क्षेत्रफल (एफ०ए०आर०, नॉन एफ०ए०आर०, स्टिल्ट व बेसमेंट सहित )	=33,699.621 + 2,05,564.048 + 4,385.686 + 65,317.126 = 3,08,966.481 वर्ग मी०			

**टिप्पणी** - स्पोर्ट सिटी का अवशेष एफ0ए0आर0 26,428.00 वर्ग मी0 जो संदर्भित योजना के कुल आवासीय एफ0ए0आर0 2,03,605.522 वर्ग मी0 का 12.98% है, का उपयोग आवासीय / ग्रुप हाऊसिंग के उपयोग में स्पोर्ट सिटी के पूर्ण हो जाने के बाद किया जा सकेगा ।

संलग्नक - भवन में स्वीकृत मानचित्र ।

Map of proposed Building + per Bye  
Laws. Submitted for approval please.

नाम..... Hem  
 पद..... डिप्लोमा गैड)  
 नौएडा १० सप्टेंबर नियोग  
 मार्क्य

प्रतिलिपि:- विशेष कार्याधिकारी(वाणिज्यक) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

